

# Question Bank

**B.Com Part- 1 (Honours) Paper- 2 Group D**

**Subject: Principles of Business Finance**

**University Department of Commerce**

**And Management**

**B.R.A.B.U, Muzaffarpur**

## Multiple choice Question - ( बहुविकल्पीय प्रश्न)

- Funds required for acquiring current assets are part of - (चालू सम्पत्तियाँ खरीदने के लिए वित्त की आवश्यकता भाग है) –
  - working capital Requirements  
(कार्यशील पूँजी की आवश्यकता)
  - Fixed Capital Requirement  
(स्थायी पूँजी की आवश्यकता)
  - Retained earnings  
(प्रतिधारित आय)
  - All of the above  
(उपर्युक्त सभी)
- Funds are required for :- (कोषों की आवश्यकता है)–
  - Financing fixed assets only  
(केवल स्थायी सम्पत्तियों के लिए)
  - current assets only  
(चालू सम्पत्तियों के लिए)
  - Expansions only  
(विस्तार के लिए)
  - All of the above  
(उपर्युक्त सभी)
- Funds required for acquiring fixed assets are part of :- (स्थायी सम्पत्तियाँ खरीदने के लिए वित्त की आवश्यकता भाग है)–
  - Fixed capital Requirement  
(स्थायी पूँजी की आवश्यकता)
  - Working capital Requirement  
(चालू पूँजी की आवश्यकता)
  - Self-finance  
(स्वयं वित्त)
  - None of the above  
(उपर्युक्त में कोई नहीं)
- Short-term financial plans are made for:- (अल्पकालीन वित्तीय नियोजन) –
  - Than one year  
(एक वर्ष से कम अवधि)
  - More than one year  
(एक वर्ष से अधिक अवधि)
  - More than one year but less than five years  
(एक वर्ष से अधिक लेकिन पाँच वर्ष से कम अवधि)
  - More than five years  
(पाँच वर्ष से अधिक अवधि के लिए)

5. **Financial Planning is essential :** (वित्ती नियोजन आवश्यक है) :
- |   |   |
|---|---|
| a) For small business<br>(केवल छोटे व्यवसाय के लिए) | b) For large business<br>(केवल बड़े व्यवसाय के लिए) |
| c) For both business`<br>(दोनों के लिए)             | d) For none of the above<br>(किसी के लिए नहीं)      |
6. **Objective of financial planning is:** (वित्तीय नियोजन का उद्देश्य) :
- |  |  |
|--|--|
| a) To obtain sufficient funds<br>for the business<br>(व्यसाय के लिए पर्याप्त मात्रा में<br>कोष उपलब्ध कराना) | b) To maintain cost of Capital<br>at Minimum<br>(पूँजी लागत को न्यूनतम रखना) |
| c) To bring simplicity in capital<br>Structure<br>(पूँजी ढाँचे में सरलता लाना)                               | d) All of the above<br>(उपर्युक्त सभी)                                       |
7. **Financial planning is affected by :** (वित्तीय नियोजन प्रभावित होता है):
- |   |  |
|---|--|
| a) Nature of business<br>(व्यवसाय की प्रकृति) | b) Degree of risk<br>(जोखिम की मात्रा) |
| c) Goodwill of the firm<br>(संस्था की साख)    | d) All of the above<br>(उपर्युक्त सभी) |
8. **The amount of capitalization is determined by :** (पूँजीकरण की मात्रा का निर्धारण होता है) :
- |  |  |
|--|--|
| a) Estimating the financial needs<br>(आवश्यकताओं के अनुमान द्वारा) | b) Earning theory of<br>capitalisation<br>(पूँजीकरण के आय सिद्धांत द्वारा) |
| c) Estimating the expenses<br>(खर्चों के अनुमान द्वारा )           | d) None of the above<br>(उपर्युक्त किसी के द्वारा नहीं)                    |
9. **The causes of over-capitalisation are :** (अति-पूँजीकरण के कारण है)
- |   |  |
|---|--|
| a) Excess issue of capital<br>(अत्यधिक पूँजी निर्गमन) | b) Excess preliminary expenses<br>(अधिक प्रवर्तन व्यय) |
| c) Shortage of capital<br>(पूँजी का अभाव)             | d) All of the above<br>(उपर्युक्त सभी)                 |
10. **The causes of under-capitalisation are :** (अल्प-पूँजीकरण के कारण है)

- |   |  |
|---|--|
| a) Less-estimate of earning<br>(आय का कम अनुमान)                    | b) promotion of company in recession<br>(मन्दी काल में कम्पनी का प्रवर्तन) |
| c) Difficulty in raising capital<br>(पूँजी एकत्रित करने में कठिनाई) | d) All of the above<br>(उपर्युक्त सभी)                                     |

11. The remedies for under-capitalisation are : (अल्प-पूँजीकरण के उपाय हैं) :

- |   |   |
|---|---|
| a) Issue of bonus shares<br>(बोनस अंशों का निर्गमन) | b) Issue of new shares<br>(नए अंशों का निर्गमन) |
| c) Spilting of shares<br>(अंशों का विभाजन)          | d) All of the above<br>(उपर्युक्त सभी)          |

12. Long-term finance is generally needed for a period of : (दीर्घकालीन ऋण की आवश्यकता होती है) :

- |   |   |
|---|---|
| a) Ten years or more<br>(10 वर्ष या अधिक)     | b) five years or more<br>(5 वर्ष या अधिक) |
| c) fifteen years or more<br>(15 वर्ष या अधिक) | d) two years or more<br>(2 वर्ष या अधिक)  |

13. Short-term finance is raised for a period of : (अल्पकालीन वित्त लिया जाता है) :

- |   |  |
|---|--|
| a) Three months or less<br>(3 महीने या कम)        | b) Twelve months or less<br>(12 महीने या कम) |
| c) Twenty four months or less<br>(24 महीने या कम) | d) Twenty months or less<br>(20 महीने या कम) |

14. Medium-term finance is raised for a period of : (मध्यकालीन ऋण अवधि के लिए जाता है)

- |  |  |
|--|--|
| a) More than one year and less than ten years<br>(एक वर्ष से अधिक लेकिन दस वर्ष से कम)       | b) Less than one year and more than ten years<br>(एक वर्ष से कम लेकिन दस वर्ष से अधिक )  |
| c) More than five years and less than eight years<br>(पाँच वर्ष से अधिक लेकिन आठ वर्ष से कम) | d) Less than one year and less than five years<br>(एक वर्ष से कम लेकिन पाँच वर्ष से कम ) |

15. Underwriters are required to be registered with : (अभिगोपकों का पंजीकरण निम्न के साथ कराना अनिवार्य है) :

- |         |        |
|---------|--------|
| a) SEBI | b) RBI |
|---------|--------|

(सेबी)

(रिजर्व बैंक)

c) (a) and (b) both  
(‘अ’ और ‘ब’ दोनों)

d) None of the above  
(उपर्युक्त से कोई नहीं)

16. Underwriting of securities in India started in : (भारत में प्रतिभूतियों का अभिगोपन शुरू हुआ)  
:

a) 1944  
(1944 में)

b) 1912  
(1912 में)

c) 1930  
(1930 में)

d) 1980  
(1980 में)

17. Types of underwriting include : (अभिगोपन के प्रकार में शामिल है) :

a) Firm Underwriting  
(निश्चित अभिगोपन)

b) Syndicate underwriting  
(सिंडीकेट अभिगोपन)

c) Sub-underwriting  
(उप-अभिगोपन)

d) All of these  
(उपर्युक्त सभी)

18. Amount charged by the underwriter for providing underwriting service is called:  
(अभिगोपक द्वारा अभिगोपन सेवाओं के बदले चार्ज की गई राशि कहलाती है) :

a) Brokerage  
(दलाली)

b) Underwriting Commission  
(अभिगोपन कमीशन)

c) Discount  
(छूट)

d) None of the above  
(इनमें से कोई नहीं)

19. Traditional approach to financial management is characterized by :  
(वित्तीय प्रबंध की परम्परागत विचारधारा की विशेषता है।)

a) Descriptive in nature  
(वर्णनात्मक)

b) Sporadic  
(यंत्रतत्रिक)

c) Emphasis on procurement of funds  
(कोषों की उपलब्ध पर अधिक ध्यान)

d) All of the above  
(उपर्युक्त सभी)

20. Modern approach to financial management is characterized by :  
(वित्तीय प्रबंध की आधुनिक विचारधारा की विशेषता है।)

a) focal point in decision-making  
(निश्चयीकरण प्रक्रिया का समग्र बिन्दु)

b) continuous administrative  
function.  
(निरन्तर प्रशासनिक कार्य)

c) centralized nature  
(केन्द्रीय प्रकृति)

d) All of the above  
(उपर्युक्त सभी)

21. Profit in business parlance means : (व्यवसाय की भाषा में लाभ का अर्थ है)
- |  |  |
|--|--|
| a) Profit after tax<br>(कर पश्चात् लाभ)                              | b) Profit before tax<br>(कर पूर्व लाभ)                     |
| c) Earnings before interest<br>& tax (EBIT)<br>(ब्याज व कर पूर्व आय) | d) Return on capital employed<br>(पूँजी पर प्रत्याय की दर) |
22. Wealth maximization is considered to be a better objective of financial management because : (सम्पत्ति के मूल्य में वृद्धि वित्तीय प्रबंध का बेहतर उद्देश्य है क्योंकि)
- |  |  |
|--|--|
| a) It considers time value of money<br>(यह द्रव्य के समय-मूल्य पर विचार करता है)                                       | b) It considers risk by<br>discounting future cash flows<br>(भविष्य के नकद प्रवाह को उचित ब्याज दर पर कटौती कर जोखिम पर विचार करता है) |
| c) It is free from drawbacks of goal<br>of profit maximization<br>(यह लाभ में वृद्धि सिद्धान्त की कमियों से मुक्त है।) | d) All of the above<br>(उपर्युक्त सभी)   |
23. Study of financial management is useful for : (वित्तीय प्रबंध के अध्ययन की उपयोगिता है।)
- |  |  |
|--|--|
| a) Shareholders<br>(अंशधारियों के लिए) | b) Managers<br>(प्रबन्धकों के लिए)     |
| c) Brokers<br>(दलालों के लिए)          | d) All of the above<br>(उपर्युक्त सभी) |
24. Board of directors in a company are answerable to (एक कम्पनी के संचालक मण्डल के सदस्य निम्न के प्रति उत्तरदायी होते हैं)
- |  |  |
|--|--|
| a) Chairman-cum-Managing Director<br>(अध्यक्ष एवं प्रबंध संचालक) | b) Financial Manager<br>(वित्तीय प्रबंधक में)    |
| c) Shareholders<br>(अंशधारियों में)                              | d) None of the above<br>(उपर्युक्त में कोई नहीं) |
25. Out of three types of financial decisions, the following can be taken independent of the other two: (तीन प्रकार के वित्तीय निर्णयों में निम्न निर्णय शेष दो से प्रभावित नहीं होता)
- |                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| a) Investment Decision | b) Financing Decision |
|------------------------|-----------------------|

(विनियोग निर्णय)

(वित्त पूर्ति निर्णय)

c) Dividend Decision

d) None of the above

(लाभांश निर्णय)

(इनमें से कोई नहीं)

26. Main objective of working capital management- (कार्यशील पूँजी प्रबंध का मुख्य उद्देश्य है)

a) To create current assets

b) to establish co-ordination

(चालू सम्पत्तियों की रचना)

between liquidity and  
profitability

(तरलता और लाभ प्रदता में समन्वय  
रखना)

c) To determine finance policy

d) All of the above

(वित्त नीति का निर्धारण)

(उपर्युक्त सभी)

27. Analysis of working capital is done through - (कार्यशील पूँजी का विश्लेषण किया जाता है)

a) Ratio Analysis

b) Working capital forecast

(अनुपात विश्लेषण द्वारा)

(कार्यशील पूँजी का अनुमान लगाकर)

c) Altering working capital

d) None of the above

(कार्यशील पूँजी में परिवर्तन करके)

(इनमें से कोई नहीं)

28. Funds-flow statement highlights : (कोष-प्रवाह विवरण यह प्रकट करता है।)

a) Sources of funds

b) Application of funds

(कोष की प्राप्ति के स्रोत)

(कोष के उपयोग के मद)

c) Sources and Application of funds

d) None of above

(कोष की प्राप्ति के स्रोत एवं उपयोग के मद)

(इनमें से कोई नहीं)

29. Main functions of financial management are: (वित्तीय प्रबंध के मुख्य कार्य क्या हैं)

a) Financial Planning

b) Procurement of funds

(वित्तीय नियोजन)

(कोषों को प्राप्त करना)

c) Allocation of net profits

d) all of these

(शुद्ध लाभ का आवंटन)

(उपर्युक्त सभी)

30. Modern approach of financial management is : (वित्तीय प्रबंध की आधुनिक विचारधारा है) :

a) Procurement of funds

b) utilization of funds

(कोषों को प्राप्त करना)

(कोषों का उपयोग करना)

c) Both (a) and (b)

d) None of these

(‘अ’ तथा ‘ब’ दोनों)

(इनमें से कोई नहीं)

31. Traditional approach of financial management was discarded during :  
(वित्तीय प्रबंध की परमपरागत विचारधारा को कब त्याग दिया गया था)
- |                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| a) 1910 – 20<br>(1910–20 में) | b) 1920 – 30<br>(1920–30 में) |
| c) 1930 – 40<br>(1930–40 में) | d) 1940 – 50<br>(1940–50 में) |
32. According to whom, " The financial plan of a corporation has two fold aspect it refers not only to the capital structure of the corporation on, but also to the financial policies which corporation has adopted or intends to adopt."  
(..... के अनुसार, " एक नियम की वित्तीय योजना के दो पहलु होते हैं " एक यह निगम की पूँजी-संरचना की ओर संकेत करती है तथा दूसरे यह निगम द्वारा अपनाई, गई अथवा अपनाई जाने वाली वित्तीय नीतियों को स्पष्ट करता है।) "
- |                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| a) Walker & Baughn<br>(वाकर एवं बाघन) | b) W.J. Stanton<br>(डब्ल्यू. जे. स्टेण्टन) |
| c) J.L. Massie<br>(जे. एल. मैसी)      | d) Howard & Upton<br>(हावर्ड एवं उपटन)     |
33. Capital structure includes : (पूँजी-संरचना में क्या सम्मिलित है)
- |  |                                    |
|--|------------------------------------|
| a) Share Capital<br>(अंश पूँजी)          | b) Debenture<br>(ऋणपत्र)           |
| c) Deposits from public<br>(जनता से जमा) | d) All of these<br>(उपर्युक्त सभी) |
34. Fixed capital needed for ..... Period: (स्थायी पूँजी की आवश्यकता कितने अवधि के लिए होती है।)
- |  |   |
|--|---|
| a) For short period<br>(अल्पकालीन अवधि के लिए)       | b) for long period<br>(दीर्घकालीन अवधि के लिए)  |
| c) For (a) and (b) both<br>(‘अ’ और ‘ब’ दोनों के लिए) | d) for ordinary period<br>(सामान्य अवधि के लिए) |
35. Financial Management is ..... (वित्तीय प्रबंध ..... है)
- |   |   |
|---|---|
| a) Art<br>(कला)                                   | b) Science<br>(विज्ञान)                 |
| c) Both art and science<br>(कला और विज्ञान दोनों) | d) None of these<br>(इनमें से कोई नहीं) |

36. Characteristics of a sound financial planning is - (सदृढ़ वित्तीय नियोजन की विशेषता है.....  
.....)
- a) Economy (मितव्ययिता)                      b) Simplicity (सरलता)
- c) Durability (सहनशीलता)                      d) Consistency (संगति)
37. The future of stock exchange in India is (भारत में स्कन्ध विपणियों का भविष्य कैसा है)
- a) Bright (उज्ज्वल)                      b) In Dark (अंधेरे में)
- c) Ordinary (सामान्य)                      d) No future (कोई भविष्य नहीं)
38. Head office of SEBI is in (सेबी का मुख्य कार्यालय कहाँ है)
- a) Delhi (दिल्ली)                      b) Mumbai (मुम्बई)
- c) Kolkata (कोलकाता)                      d) Chennai (चेन्नई)
39. For stock changes, the services of SEBI is (स्कन्ध विपणियों के लिए सेबी की सेवाएं क्या है)
- a) Voluntary (ऐच्छिक)                      b) Necessary (आवश्यक)
- c) Unnecessary (अनावश्यक)                      d) Compulsory (अनिवार्य)
40. The foremost stock exchange was established in (विश्व में सबसे पहले स्कन्ध विपणि की स्थापना कहाँ हुई थी)
- a) Delhi (दिल्ली)                      b) London (लन्दन)
- c) America (अमेरिका)                      d) Japan (जापान)
41. The first stock exchange in India was established in ..... (भारत में सबसे पहले स्कन्ध विपणि की स्थापना कब हुई थी)
- a) 1857 (1857 में)                      b) 1877 (1877 में)
- c) 1887                      d) 1987



(1887 में)

(1987 में)

42. The no. of stock exchanges in 2004 was (सन् 2004 में भारत में स्कन्ध विपणियों की संख्या कितनी थी)
- a) 20  
b) 21  
c) 23  
d) 24
43. Regional office of SEBI is situated in (सेबी का क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ स्थित है)
- a) Delhi (दिल्ली)  
b) Chennai (चेन्नई)  
c) Kolkata (कोलकाता)  
d) All these three (इन तीनों जगह)
44. Legally, SEBI was established in ..... (वैधानिक रूप में सेबी की स्थापना कब हुई थी)
- a) 1988  
b) 1990  
c) 1992  
d) 1994
45. Stock exchange protects the interest of ..... (स्कन्ध विपणि हित की सुरक्षा करती है)
- a) Investor (निवेशक)  
b) Company (कम्पनी)  
c) Government (सरकार)  
d) None of these (इनमें से कोई नहीं)
46. Regular working capital is the part of :- (नियमित कार्यशील पूँजी भाग है ....)
- a) Permanent working capital (स्थायी कार्यशील पूँजी)  
b) Variable working capital (परिवर्तनशील कार्यशील पूँजी)  
c) Net working capital (शुद्ध कार्यशील पूँजी)  
d) None of above (इनमें से कोई नहीं)
47. Which of the following are the factors affecting the requirement of working capital? (निम्न में से कौन-से कार्यशील पूँजी की आवश्यकता को प्रभावित करने वाले घटक हैं)
- a) Nature of business (व्यवसाय की प्रकृति)  
b) Scale of operation (क्रियाओं का स्तर)  
c) Production Cycle (उत्पादक चक्र)  
d) Raw Material (कच्चा माल)
48. Which of the following are the features of capital budgeting ? (निम्न में से कौन-सी पूँजी बजटिंग की विशेषताएं हैं।)

- |   |  |
|---|--|
| a) Heavy Investment<br>(भारी विनियोग)             | b) Long-term Investment<br>(दीर्घकालीन विनियोग)  |
| c) Not easily reversible<br>(परिवर्तन में कठिनाई) | d) High degree of risk<br>(जोखिम की अधिक मात्रा) |

49. Which of the following are the factors affecting the requirement of fixed capital ?  
(निम्न में से कौन-से स्थायी पूँजी की आवश्यकता को प्रभावित करने वाले घटक हैं) ?

- |   |   |
|---|---|
| a) Nature of business<br>(व्यवसाय की प्रकृति) | b) Scale of operation<br>(क्रियाओं का पैमाना) |
| c) Choice of technique<br>(पद्धति का चयन)     | d) Technology upgradation<br>(तकनीकी नवीनता)  |

50. Which of the following are the feature of stock exchange ? (निम्न में से कौन-सी स्कन्ध विपणी की विशेषताएं हैं) ?

- |  |  |
|--|--|
| a) Organised market<br>(संगठित बाजार)    | b) Dealing in securities issued by various concerns<br>(विभिन्न संस्थाओं द्वारा निर्गमित प्रतिभूतियों में व्यवहार) |
| c) Unorganised Market<br>(असंगठित बाजार) | d) None of above<br>(इनमें से कोई नहीं)  |

51. Basic objective of Financial Management is ..... (वित्तीय प्रबंधन का मूल उद्देश्य ..... है)

- |   |  |
|---|--|
| a) Maximization of profit<br>(लाभ का अधिकतमकरण)   | b) Maximization of share holder's wealth<br>(शेयरधारक की संपत्ति का अधिकतमकरण) |
| c) Ensuring Financial discipline in the firm<br>(फर्म में वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करना) | d) All of these<br>(ये सब)   |

52. Financial structure refers to ..... (वित्तीय संरचना ..... को संदर्भित करती है)

- |   |   |
|---|---|
| a) Short-term resources<br>(अल्पकालीक संसाधन) | b) All the financial resource<br>(सभी वित्तीय संसाधन) |
| c) Long-term resources<br>(दीर्घकालीक संसाधन) | d) All of these<br>(ये सब)                            |

53. The market value of the firm is the result of ..... (फर्म का बाजार मूल्य ..... का परिणाम है।)

- |  |   |
|--|---|
| a) Dividend decisions<br>(लाभांश निर्णय)             | b) Working capital decisions<br>(कार्यशील पूँजी निर्णय)                     |
| c) Capital budgeting decisions<br>(पूँजी बजट निर्णय) | d) Trade-off between risk and return<br>(जोखिम और वापसी के बीच व्यापार बंद) |

54. Cost of capital is ..... (पूँजी का लागत ..... है।)

- |   |   |
|---|---|
| a) Lesser than the cost of debt capital.<br>(ऋण पूँजी की लागत से कम)  | b) Equal to the last dividend paid to the equity shareholder's<br>(इक्विटी शेयरधारकों को भुगतान किए गए अंतिम लाभांश के बराबर) |
| c) Equal to the dividend expectations of equity shareholders for the coming year.<br>(आने वाले वर्ष के लिए इक्विटी शेयरधारकों की लाभांश अपेक्षाओं के बराबर) | d) None of the above<br>(उपरोक्त में से कोई नहीं)   |

55. In walter model formula D stands for ..... (वाल्टर मॉडल फॉर्मूला में D का अर्थ .... है।)

- |  |  |
|--|--|
| a) Dividend per share<br>(प्रति शेयर लाभांश) | b) Direct dividend<br>(प्रत्यक्ष लाभांश) |
| c) Direct earnings<br>(प्रत्यक्ष कमाई)       | d) None of these<br>(इनमें से कोई नहीं)  |

56. .... security is known as variable income security. (..... सुरक्षा को परिवर्तनीय आय सुरक्षा के रूप में जाना जाता है।)

- |                                    |   |
|------------------------------------|---|
| a) Debentures<br>(डिबेंचर)         | b) Preference shares<br>(वरीयता शेयर)   |
| c) Equity shares<br>(इक्विटी शेयर) | d) None of these<br>(इनमें से कोई नहीं) |

57. Quick asset does not include ..... (त्वरित संपत्ति में ..... शामिल नहीं है)

- |  |                               |
|--|-------------------------------|
| a) Government bonds<br>(सरकारी बॉण्ड)  | b) Book debts<br>(बुक ऋण)     |
| c) Advance for supply of raw materials<br>(कच्ची माल की अपूर्ति के लिए अग्रिम) | d) Inventories<br>(इन्वेंटरी) |

58. Long term finance is required for ..... (..... के लिए दीर्घकालीन वित्त की आवश्यकता होती है)
- |  |   |
|--|---|
| a) Current assets<br>(वर्तमान संपत्ति)   | b) Fixed assets<br>(अचल संपत्ति)        |
| c) Intangible assets<br>(अमूर्त संपत्ति) | d) None of these<br>(इनमें से कोई नहीं) |
59. Financial leverage can be measured in ..... (वित्तीय उत्तोलन को ..... में मापा जा सकता है।)
- |  |   |
|--|---|
| a) Stock term<br>(स्टॉक टर्म)              | b) Flow term<br>(फ्लो टर्म)             |
| c) Both (a) and (b)<br>(दोनों 'ए' और 'बी') | d) None of these<br>(इनमें से कोई नहीं) |
60. Current ratio of a concern is 1, its net working capital will be ..... (एक प्रतिष्ठान का वर्तमान अनुपात 1 है, इसकी शुद्ध कार्यशील पूँजी ..... होगी।)
- |                            |   |
|----------------------------|---|
| a) Positive<br>(सकारात्मक) | b) Neutral<br>(तटस्थ)                   |
| c) Negative<br>(नकारात्मक) | d) None of these<br>(इनमें से कोई नहीं) |
61. The major benefit of diversification is to ..... (विविधीकरण का प्रमुख लाभ ..... है।)
- |   |   |
|---|---|
| a) Increase the expected return<br>(अपेक्षित रिटर्न बढ़ाएं) | b) Increase the size of the investment portfolio<br>(निवेश पोर्टफोलियों का आकार बढ़ाएं) |
| c) Reduce brokerage commissions<br>(ब्रोकरेज कमीशन कम करें) | d) Reduce the expected risk<br>(अपेक्षित जोखिम को कम करें)                              |
62. The risk free rate of return is 8 % the expected rate of rate of return on market portfolio is 15 % the beta of eco boards equity stock is 1.4. the required rate on eco boards equity is \_\_\_\_\_. (जोखिम मुक्त रिटर्न की दर 8 प्रतिशत है, बाजार पोर्टफोलियों पर वापसी की अपेक्षित दर 15 प्रतिशत है, ईको बोर्ड इक्विटी स्टॉक का बीटा 1.4 है। इको बोर्ड इक्विटी पर आवश्यक दर ..... है।)
- |                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| a) 15.4 %<br>(15.4 प्रतिशत) | b) 16.8 %<br>(16.8 प्रतिशत) |
|-----------------------------|-----------------------------|

- c) 17.2 %  
(17.2 प्रतिशत)
- d) 17.8 %  
(17.8 प्रतिशत)

63. .... is concerned with acquisition, financing, and management of assets with some overall goal in mind. (... कुछ लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए संपत्ति के अधिग्रहण, वित्तपोषण और प्रबंधन से संबंधित है।)

- a) Financial management  
(वित्तीय प्रबंधन)
- b) Profit maximization  
(लाभ अधिकतमकरण)
- c) Agency Theory  
(एजेंसी सिद्धांत)
- d) Social responsibility  
(सामाजिक जिम्मेदारी)

64. .... is concerned with the maximization of a firm's earnings after taxes. (... करें के बाद एक फर्म की कमाई को अधिकतम करने से संबंधित है)

- a) Shareholder wealth maximization  
(शेयरधारक धन अधिकतमकरण)
- b) Profit maximization  
(लाभ अधिकतमकरण)
- c) Stakeholder maximization  
(हितधारक अधिकतमकरण)
- d) EPS maximization  
(ईपीएस अधिकतमकरण)

65. .... is the most appropriate goal of the firm. (... फर्म का सबसे उपयुक्त लक्ष्य है।)

- a) Shareholder wealth maximization  
(शेयरधारक धन अधिकतमकरण)
- b) Profit maximization  
(लाभ अधिकतमकरण)
- c) Stakeholder maximization  
(हितधारक अधिकतमकरण)
- d) EPS maximization  
(ईपीएस अधिकतमकरण)

66. If a company issues bonus shares the debt equity ration .....  
(यदि कोई कंपनी बोनस शेयर जारी करती है तो ऋण इक्विटी अनुपात .....)

- a) Remain unaffected  
(अप्रभावित रहे)
- b) Will be affected  
(प्रभावित होगा)
- c) Will improve  
(सुधार होगा)
- d) None of the above  
(उपरोक्त में से कोई नहीं)

67. Which of the following is not normally a responsibility of the treasurer of the modern corporation but rather the controller ? (निम्नलिखित में से कौन सामान्य रूप से आधुनिक निगम के कोषाध्यक्ष की नहीं बल्कि नियंत्रित की जिम्मेदारी है?)

- a) Budgets and forecasts  
(बजट और पूर्वानुमान)
- b) Asset management  
(संपत्ति प्रबंधन)
- c) Investment management
- d) Financial management

(निवेश प्रबंधन)

(वित्तीय प्रबंधन)

68. Corporate governance success includes three key groups. \_\_\_\_\_ represents these three groups. (कॉरपोरेट प्रशासन की सफलता में तीन प्रमुख समूह शामिल हैं। ..... इन तीन समूहों का प्रतिनिधित्व करता है)

- a) Suppliers, managers, and customers (आपूर्तिकर्ता, प्रबंधक और ग्राहक)
- b) Board of directors, executive officers, and common shareholders. (निदेशक मंडल, कार्यकारी अधिकारी और सामान्य शेयरधारक)
- c) Suppliers, employees, and customers (आपूर्तिकर्ता, कर्मचारी और ग्राहक)
- d) Common shareholders, managers and employees. (आम शेयरधारक, प्रबंधक और कर्मचारी)

69. In 2 years you are to receive Rs. 10, 000. If the interest rate were to suddenly decrease, the present value of that future amount to you would ..... (2 वर्षों में आपको 10,000 रुपये प्राप्त होने हैं। यदि ब्याज दर अचानक घट जाती है, तो आपके लिए उस भविष्य की राशि का वर्तमान मूल्य ..... होगा।)

- a) Fall (झरना)
- b) Rise (उदय)
- c) Remain unchanged (अपरिवर्तित रहे)
- d) Cannot be determined (निर्धारित नहीं किया जा सकता है।)

70. Interest paid (earned) on both the original principal borrowed (lent) and previous interest earned is often referred to as ..... (मूल मूलधन उधार (उधार) और पिछले अर्जित ब्याज दोनों पर भुगतान (अर्जित) ब्याज को अक्सर ..... के रूप में संदर्भित किया जाता है।)

- a) Present value (वर्तमान मूल्य)
- b) Simple interest (साधारण ब्याज)
- c) Future value (भविष्य मूल्य)
- d) Compound interest (चक्रवृद्धि ब्याज)

71. The long-run objective of financial management is to ..... (वित्तीय प्रबंधन का दीर्घकालिक उद्देश्य ..... है।)

- a) Maximize earnings per share (प्रति शेयर कमाई को अधिकतम करें)
- b) Maximize the value of the firm's common stock. (फर्म के सामान्य स्टॉक के मूल्य को अधिकतम करें)
- c) Maximize return on investment (निवेश पर प्रतिफल को अधिकतम करें)
- d) Maximize market share (बाजार हिस्सेदारी को अधिकतम करें)

72. The most important and common form of dividend is .....  
(लाभांश का सबसे महत्वपूर्ण और सामान्य रूप ..... है।)
- |                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| a) Stock dividend<br>(स्टॉक लाभांश) | b) Cash dividend<br>(नकद लाभांश)           |
| c) Bond dividend<br>(बांड लाभांश)   | d) Scrip's dividend<br>(स्क्रिप का लाभांश) |
73. \_\_\_\_\_ form of market efficiency states that current security prices fully reflect all information, both public and private. (..... बाजार दक्षता के रूप में कहा गया है कि वर्तमान सुरक्षा मूल्य सार्वजनिक और निजी दोनों तरह की सभी सूचनाओं को पूरी तरह से प्रतिबिंबित करते हैं।)
- |                      |                                |
|----------------------|--------------------------------|
| a) Weak<br>(कमजोर)   | b) Semi-strong<br>(अर्ध-मजबूत) |
| c) Strong<br>(मजबूत) | d) Flexible<br>(लचीला)         |
74. Which form of market efficiency states that current prices fully reflect the historical sequence of prices ? (बाजार दक्षता का कौन सा रूप बताता है कि मौजूदा कीमतें कीमतों के ऐतिहासिक अनुक्रम को पूरी तरह से दर्शाती हैं?)
- |                      |                                |
|----------------------|--------------------------------|
| a) Weak<br>(कमजोर)   | b) Semi-strong<br>(अर्ध-मजबूत) |
| c) Strong<br>(मजबूत) | d) Flexible<br>(लचीला)         |
75. \_\_\_\_\_ form of market efficiency states that current prices fully reflect all publicly available information. (..... बाजार दक्षता का रूप बताता है कि मौजूदा कीमतें सार्वजनिक रूप से उपलब्ध सभी सूचनाओं को पूरी तरह से दर्शाती हैं।)
- |                      |                                |
|----------------------|--------------------------------|
| a) Weak<br>(कमजोर)   | b) Semi-strong<br>(अर्ध-मजबूत) |
| c) Strong<br>(मजबूत) | d) Flexible<br>(लचीला)         |
76. \_\_\_\_\_ is concerned with the acquisition, financing, and management of assets with some overall goal in mind. (..... कुछ समग्र लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए संपत्ति के अधिग्रहण, वित्तपोषण और प्रबंधन से संबंधित है।)
- |   |   |
|---|---|
| a) Financial management<br>(वित्ती प्रबंधन) | b) Profit maximization<br>(लाभ अधिकतमकरण) |
|---|---|





- c) **Strong**  
(मजबूत)
- d) **Highly strong**  
(अत्यधिक मजबूत)

82. \_\_\_\_\_ is one that maximizes value of business, minimizes overall cost of capital, that is flexible, simple and futuristic, that ensures adequate control on affairs of business by the owners and so on. (..... वह है जो व्यवसाय के मूल्य को अधिकतम करता है, पूंजी की समग्र लागत को कम करता है, जो लचीला, सरल और भविष्यवादी है, जो मालिकों द्वारा व्यवसाय के मामलों पर प्रयाप्त नियंत्रण सुनिश्चित करता है और इसी तरह।)

- a) **Minimal capital structure**  
(न्यूनतम पूंजी संरचना)
- b) **Moderate capital structure**  
(मध्यम पूंजी संरचना)
- c) **Optimal capital structure**  
(इष्टतम पूंजी संरचना)
- d) **Deficit capital structure**  
(घाटा पूंजी संरचना)

83. \_\_\_\_\_ refers to make-up of a firm's capitalization. (..... एक फर्म के पूंजीकरण के मेकअप को संदर्भित करता है।)

- a) **Capital structure**  
(पूंजी संरचना)
- b) **Capital budgeting**  
(पूंजी बजट)
- c) **Equity shares**  
(इक्विटी शेयर)
- d) **Dividend policy**  
(लाभांश नीति)

84. \_\_\_\_\_ of different sources of capital influences capital structure. (पूंजी के विभिन्न स्रोतों का 64, ..... पूंजी संरचना को प्रभावित करता है।)

- a) **Restrictive covenants**  
(प्रतिबंधात्मक अनुबंध)
- b) **Tax advantage**  
(कर लाभ)
- c) **Cost of capital**  
(पूंजी की लागत)
- d) **Trading on equity**  
(इक्विटी पर ट्रेडिंग)

85. \_\_\_\_\_ of debt capital is a factor in favor of using more debt capital. (..... ऋण पूंजी का अधिक ऋण पूंजी का उपयोग करने के पक्ष में एक कारक है।)

- a) **Tax advantage**  
(कर लाभ)
- b) **Debt equity norms**  
(ऋण इक्विटी मानदंड)
- c) **Leverage effect**  
(उत्तोलन प्रभाव)
- d) **Security of assets**  
(संपत्ति की सुरक्षा)

86. \_\_\_\_\_ is a payment of additional shares to shareholders in lieu of cash. (..... नकद के बदले शेयरधारकों की अतिरिक्त शेयरों का भुगतान है।)

- a) **Stock split**  
(स्टॉक विभाजन)
- b) **Stock dividend**  
(स्टॉक लाभांश)

- c) **Extra dividend**  
(अतिरिक्त लाभांश)
- d) **Regular dividend**  
(नियमित लाभांश)

87. \_\_\_\_\_ such as restriction on business expansion, on raising additional capital, on declaration of dividend, nominee directors on the board, convertibility clause, etc. (..... जैसे व्यापार विस्तार पर प्रतिबंध, अतिरिक्त पूंजी जुटाने पर, लाभांश की घोषणा पर, बोर्ड में नामित निदेशक, परिवर्तनीयता खंड, आदि।)

- a) **Trading on equity**  
(इक्विटी पर ट्रेडिंग)
- b) **Security of assets**  
(संपत्ति की सुरक्षा)
- c) **Restrictive covenants**  
(प्रतिबंधात्मक करार)
- d) **Debt capacity of a business**  
(एक व्यवसाय की ऋण क्षमता)

88. Debt capacity of a business needs \_\_\_\_\_. (एक व्यवसाय की ऋण क्षमता ..... की आवश्यकता होती है।)

- a) **Restriction**  
(प्रतिबंध)
- b) **Consideration**  
(विचार)
- c) **Leverage**  
(उत्तोलन)
- d) **Security**  
(सुरक्षा)

89. Financial leverage refers to the rate of change in earnings per share for a given change in earnings \_\_\_\_\_. (वित्तीय उत्तोलन आय में दिए गए परिवर्तन के लिए प्रति शेयर आय में परिवर्तन की दर को संदर्भित करता है।)

- a) **Before tax**  
(टैक्स से पहले)
- b) **Before interest**  
(ब्याज से पहले)
- c) **Before interest and tax**  
(ब्याज और कर से पहले)
- d) **After interest and tax**  
(ब्याज और कर के बाद)

90. Which of the following are not among the daily activities of financial management? (निम्नलिखित में से कौन वित्तीय प्रबंधन की दैनिक गतिविधियों में से नहीं है?)

- a) **Sale of shares and bonds**  
(शेयरों और बांडों की बिक्री)
- b) **Credit management**  
(क्रेडिट प्रबंधन)
- c) **Inventory control**  
(सूची नियंत्रण)
- d) **The receipt and disbursement of funds.**  
(धन की प्राप्ति और संवितरण)

91. The allocation of capital is determined by \_\_\_\_\_. (पूंजी का आवंटन ..... द्वारा निर्धारित किया जाता है।)

- a) **Expected rates of return**  
(प्रत्याशित प्रतिलाभ दर)
- b) **The Bank of Canada**  
(बैंक ऑफ कनाडा)

- c) The initial sale of securities in the primary market.  
(प्राथमिक बाजार में प्रतिभूतियों की प्रारंभिक बिक्री)
- d) The size of the federal debt  
(संघीय ऋण का आकार)

92. The mix of debt and equity in a firm is referred to as the firm's \_\_\_\_\_.  
(एक फर्म में ऋण और इक्विटी के मिश्रण को फर्म का ..... कहा जाता है।)

- a) Primary capital  
(प्राथमिक पूँजी)
- b) Capital composition  
(पूँजी संरचना)
- c) Cost of capital  
(पूँजी की लागत)
- d) Capital structure  
(पूँजी संरचना)

93. The main focus of finance for the last 40 years has been \_\_\_\_\_.  
(पिछले 40 वर्षों से वित्त का मुख्य फोकस ..... रहा है।)

- a) Mergers and acquisitions  
(विलय और अधिग्रहण)
- b) Conglomerate firms.  
(समूह फर्म)
- c) Inflation  
(मुद्रास्फिति)
- d) Risk-return relationships  
(जोखिम-वापसी संबंध)

94. Rate of tax on capital gain and current income may influence form of \_\_\_\_\_.  
(पूँजीगत लाभ और वर्तमान आय पर कर की दर ..... के रूप को प्रभावित कर सकती है।)

- a) Equity  
(इक्विटी)
- b) Preference  
(वरीयता)
- c) Debt.  
(ऋण)
- d) Capital  
(पूँजी)

95. In finance, "working capital" means the same thing as \_\_\_\_\_.  
(वित्त में, "कार्यशील पूँजी" का अर्थ ..... के समान है।)

- a) Total assets  
(कुल सम्पत्ति)
- b) Fixed assets  
(अचल सम्पत्ति)
- c) Current assets  
(वर्तमान सम्पत्ति)
- d) Current assets minus current liabilities.  
(वर्तमान सम्पत्तियाँ वर्तमान देनदारियाँ घटाएँ)

96. \_\_\_\_\_ varies inversely with profitability.  
(..... लाभप्रदता के साथ व्युत्क्रमानुपाती होता है।)

- a) Liquidity  
(तरलता)
- b) Risk  
(जोखिम)

- c) Accounts  
(लेखा.)
- d) Trade  
(व्यापार)

97. Net working capital refers to \_\_\_\_\_. (नेट वर्किंग कैपिटल ..... को संदर्भित करता है।)

- a) total assets minus fixed assets  
(कुल सम्पत्ति घटा अचल सम्पत्ति)
- b) current assets minus current liabilities  
(चालू आस्तियाँ घटा चालू देनदारियाँ)
- c) current assets minus inventories  
(वर्तमान संपत्ति माइनस इन्वेंटरी)
- d) current assets.  
(वर्तमान संपत्ति)

98. Earlier a debt equity norm of \_\_\_\_\_ was generally insisted on by the controller of capital issues. (पहले पूँजी निर्गम के नियंत्रक द्वारा आमतौर पर ..... के ऋण इक्विटी मानदंड पर जोर दिया जाता था)

- a) 1:1  
(1:1)
- b) 1:2  
(1:2)
- c) 2:1  
(2:1)
- d) 2:2  
(2:2)

99. To financial analysts, "gross working capital" means the same thing as \_\_\_\_\_. (वित्तीय विश्लेषण के लिए, "सकल कार्यशील पूँजी" का अर्थ ..... के समान है।)

- a) Fixed assets  
(अचल संपत्ति)
- b) Current assets  
(वर्तमान संपत्ति)
- c) Working capital  
(कार्यशील पूँजी)
- d) Cost of capital  
(पूँजी की लागत)

100. An example of fixed asset is \_\_\_\_\_. (अचल संपत्ति का एक उदाहरण ..... है।)

- a) Live stock  
(लाइव स्टॉक)
- b) Value stock  
(वैल्यू स्टॉक)
- c) Income stock  
(आय स्टॉक)
- d) All of the above  
(उपरोक्त सभी)